



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2014/फाल्गुन 15, 1935

No. 79]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2014/PHALGUNA 15, 1935

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक

[प्रधान कार्यालय, मण्डी (हि.प्र.)]

अधिसूचना

मण्डी, 31 अक्टूबर, 2013

सं. 1976 का 21 .—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल, पंजाब नेशनल बैंक जो कि प्रायोजक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमावलियों को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जाएगा ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियमावली कहा जाएगा) के विनियम 2 में खंड (छ) के लिए उप-विनियम (1) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है:—

“(i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के सम्बंध में अध्यक्ष,

(ii) स्केल-I और II के सम्बंध में महाप्रबंधक, और

(iii) समूह 'ख' कार्यालय सहायक (बहुदेशीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुदेशीय) जैसे कर्मचारियों के सम्बंध में निदेशक मंडल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल IV के स्तर से कम न हो ।”

3. उक्त विनियमावली के लिए विनियम 50 में खंड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(i) निदेशक मंडल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है; और

- (iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) के उप-खंड (iii) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।”

शिव कुमार शर्मा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./298/13]

पाद टिप्पणी : दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 276 के तहत प्रकाशित प्रधान विनियमावली।

HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK

Head Office, Mandi (H.P.)

NOTIFICATION

Mandi, the 31st October, 2013

No. 21 of 1976 .— In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Himachal Pradesh Gramin Bank, after consultation with Punjab National Bank being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely:—

1. (1) These regulations may be called Himachal Pradesh Gramin Bank Service (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

(g) "Competent Authority" means:—

“(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;

(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and

(iii) an Officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board;”

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2.”

SHIV KUMAR SHARMA , Chairman

[ADVT. III/4/Exty./298/13]

Foot note: The principal Regulations published *vide* Notification No . 276, dated 23.10.2013.